

(vi) पर्यावरण और वन मंत्रालय में नीति वनकास केन्द्र की स्थापना।

7 भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जी आई एस के इस्तमाल से परती भूमियों का मूल्यांकन प्रारम्भ किया जाए।

8 भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् द्वारा विस्तार क्रयों को तेजी से किया जाना चाहिए और गुणवत्ता रोपण सामग्री (क्वालिटी प्लांटिंग मेटिरियल) के उत्पादन का निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय बीज और रोपण सामग्री प्रमाणन अभिकरण के रूप में कार्य करना चाहिए; प्रयोक्ताओं की सहभागिता से भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् द्वारा प्रयोग प्रदर्शन किए जाने चाहिए।

9 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उपयुक्त उत्पादन आंकड़ा संग्रह तथा गैर-काष्ठ वन उत्पादों की मार्केट तथा व्यापार-नीतियों की मानिट्रिंग की जानी चाहिए।

10 प्रादेशिक विशेषज्ञ जल की स्थापना के माध्यम से वनीकरण विषय पर प्रादेशिक परामर्श करने के संबंध में समिति द्वारा सिफारिश की गयी है।

11 उप-वन महानिरीक्षक स्तर के एक अधिकारी को जैव विविधता और मरुस्थलीकरण नियंत्रण प्रभाग में तैनात किया जाना चाहिए और वे सभी फाइलें, जिन्हें पर्यावरण और वन सचिव और मंत्री के पास वनीकरण गतिविधियों के लिए निधियां मांगने हेतु भेजने की आवश्यकता हो, उन्हें वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

12 राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड की चर्चा नीति के कार्यान्वयन हेतु।

की गई कार्रवाई: समिति की रिपोर्ट पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के लिए तथा देश के वन आवरण को बढ़ाने हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता में 2.7.98 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

Abandonment of Ganga Action Plan by the West Bengal Government

3399, SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of ENVIRONMENT & FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the central-y sponsored project of Ganga Action

Plan has been abandoned _by the West Bengal Government because Centre has refused to sanction funds for this;

(b) if so, reasons therefor; and

(c) whether it is possible ,to generate funds for the completion of Ganga Action Plan so as to derive the benefit of pollution free water of Ganges in its entire course?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARAN-DI):
(a) No, Sir.

(a) Does not arise.

(b) Suitable allocations have been provided in the 9th Plan to meet the Central share in the scheme of the Ganga Action Plan Phase II.

Privatisation of Degraded Forest Lands

3400. DR. B. B. DUTTA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that various sectors of industry have been lobbying for privatisation of degraded forest lands to get control over raw production;

(b) if so, details thereof alongwith Government's reaction thereto;

(c) whether Government have set up any committee for updating* the National Forest Policy, 1988; and'

(d) if so, the main recommendations made by the said committee alongwith action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARAN-DI):
(a) and (b) The paper manufacturing industry has been demanding access to severely degraded forest lands to set up captive plantations for meeting their raw material requirement by involving the industries/private entrepreneurs. The Planning Commission has constituted a working group in June, 1997 on the prospectus of leasing out the degraded forest land to the private entrepreneurs/